



## फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

जखोली। राजकीय महाविद्यालय जखोली (राजधान) में फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. कु. माधुरी ने हरी झंडी दिखाकर किया उन्होंने कहा कि समाज में विद्यार्थियों व अन्य लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योग, खेल, व्यायाम आदि शारीरिक गतिविधियां करना जरूरी है जिससे उनकी फिटनेस बनेगी और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य समाज का विकास होगा। वरिष्ठ अधिप्रेसर प्रोफेसर डॉ. देवेश शर्मा ने सभी छात्र छात्राओं को फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम को शुभसाधनाएं दीं और कहा कि "मे फिट हो सोचा इंडिया फिट।" राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम प्रभारी डॉ. चंचल कुमार बिहान ने सभी विद्यार्थियों व अन्य विद्यालयी सहित "फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम" का सफल नेतृत्व किया और बताया कि फिटनेस हमारे

स्वस्थ व समृद्ध जीवन को एक जरूरी सौते है। वर्तमान में ओलंपिक खेलों में भारतीयों के प्रदर्शन में भी दिखती है लेकिन वर्तमान में जगह जगह देने की ओर जरूरत है, जिससे हमारे विद्यार्थी नई पीढ़ी का नई दिशा के साथ फिट रहकर महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। सुबह अवसर पर डॉ. नंदलाल, डॉ. सुधाप कुमार, डॉ. विकास सुकान, डॉ. धारती, डॉ. मीनाक्षी शर्मा, डॉ. सुमित बिजलिया, कुशांग शोणन, श्री महावीर सातन, श्री करण पंडार, श्री देवेश, श्री सुजयोजन, श्री धनवीर लखन आदि एनएसएस व अन्य छात्र छात्राएं शामिल रहे और अंत में प्राचार्य डॉ. (कु.) माधुरी जी ने योग व खेल को विद्यार्थियों के जीवन के लिए आवश्यक रूप में और सुधार करने की जरूरत है बताया।

## राजकीय महाविद्यालय जखोली में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन

प्रयाग/एसएनबी।

य महाविद्यालय जखोली में फिट फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन गया, जिसमें छात्रों ने क्विज़ कर लिया और छात्रों ने फिट व स्वस्थ व मूल संघ भी खेले। तर्किक स्वस्थ का विकास हो सके। महाविद्यालय जखोली में फिट इंडिया रन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए डॉ. माधुरी ने कहा कि समाज में छात्रों स्व रहने के लिए योग, खेल, व्यायाम आदि गतिविधियां करना जरूरी है, उनकी फिटनेस बनने के साथ ही रु. व मानसिक स्वस्थ समाज का हो सकेगा। वरिष्ठ अधिप्रेसर डॉ. देवेश सभी छात्र छात्राओं से मे फिट हो रहेगा

इंडिया फिट की संज्ञा दी। साथ ही स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्र. जनकारी दी। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम। चंचल कुमार बिहान ने कार्यक्रम करते हुए बताया कि फिटनेस हमारे समृद्ध जीवन की एक जरूरी शक्ति है लेकर वर्तमान तक हमारी सं. फिटनेस पर ज्यादा जोर दिया गया है परिणति वर्तमान में ओलंपिक. भारतीयों के प्रदर्शन में भी दिखती नई पीढ़ी का नई दिशा के साथ फि. महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इस मौके पर डॉ. नंदलाल, कु. कुमार, डॉ. विकास सुकान, डॉ. ध. मीनाक्षी शर्मा, डॉ. सुमित बिजलिया सोहन, महावीर सातन, करण पं. एनएसएस के छात्रछात्राएं उपस्थित



उत्तराखण्ड समाचार

### जखोली महाविद्यालय में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव

बनारसों ने महात्मा गांधी की छाँड़ी यात्रा पर रखे विचार

जखोली। उत्तराखण्ड महाविद्यालय जखोली में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. कु. माधुरी ने किया। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव हमारे जीवन में एक अमूल्य धरोहर है। हमें अपने अधिकारों का सही उपयोग करना चाहिए और समाज के विकास के लिए योगदान देना चाहिए। वरिष्ठ अधिप्रेसर प्रोफेसर डॉ. देवेश शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर शुभसाधनाएं दीं और कहा कि "आजादी का अमृत हमारे जीवन का एक अमूल्य धरोहर है। हमें अपने अधिकारों का सही उपयोग करना चाहिए और समाज के विकास के लिए योगदान देना चाहिए।"

15/23



कार्यालय : प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय जखोली (रूद्रप्रयाग)

[gdcljakholi@gmail.com](mailto:gdcljakholi@gmail.com)

दिनांक : 07-09-2021

सूचना

राजकीय महाविद्यालय जखोली (रूद्रप्रयाग) में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राओं एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के समस्त छात्र व छात्राओं को सूचित किया जाता है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम (FIT INDIA FREEDOM RUN PROGRAMME) का आयोजन दिनांक 11 सितम्बर, 2021 प्रातः 11:00 बजे होगा सुनिश्चित हुआ है। अतः आप सभी महाविद्यालय प्राणणः में समयानुसार कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुये भगीवारी सुनिश्चित करें।

महोदय/महोदय  
डॉ० (के) माधुरी  
प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय जखोली  
जबलपुर - 482001

डॉ० (वकील कुमार विहान)  
राजकीय महाविद्यालय  
जखोली

राजकीय महाविद्यालय (रूपप्रयाग)

फिट इंडिया प्रीडम रन कार्यक्रम

(FIT INDIA FREEDOM RUN PROGRAMME)

राष्ट्रीय सेवा भौतना इकार्ड रांमहां पर्योकी  
(रूपप्रयाग) उत्तराखण्ड।

दिनांक: 11 सितम्बर, 2021

राजकीय महाविद्यालय (रूपप्रयाग) में फिट इंडिया

प्रीडम रन कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की सान्चार्य डॉ० (ए०) माधुरी पी ने डरी क्षंडी विभाकर किया, उन्हीने कहा कि समाज में विद्याविधि व अन्म हीने की स्वस्थ रहने के लिए भौतना, खिल ज्ञायाम उगादि शारीरिक गतिविधियां करना जरूरी है। निरस्ये उन्की फिटनेस बनेगी और शारीरिक व मानसिक स्वस्थ समाज का विकास हीगा। बरिखड अडिस्टैंट प्रीफिसर डॉ० देवीश नन्द ने सक्की काशीकाश्रमिं की फिट इंडिया प्रीडम रन कार्यक्रम की शुभकामनाएं दी और कहा कि "फै फिट ही रहेगा इंडिया फीट"। राखीय सेवा जीवन का कार्यक्रम प्रभाशी डॉ० बबील कुमार बिहान ने सक्की विद्याविधि 'अन्म विज्ञानगणै सखि "फैट इंडिया प्रीडम रन कार्यक्रम" का सफल निरव किया और ब्यागा कि फिटनेस हमारे स्वस्थ व समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। वर्तमान में ऑलिंपिक खेलों में भारतीयों के प्रदर्शन में भी दिखनी है। विभिन्न वर्तमान में उगादा ख्यान देनी की और जरूरत है। निरस्ये हमारे विद्यार्थी नरि पीपी का नरि दिशा के साथ फिट रहकर महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

इस शुभ अवसर पर डॉ० नरलाख, डॉ० सुभाष

कुमार, डॉ० विभाष शुक्ला, डॉ० गारी, डॉ० भीनाश्री शर्मा,

डॉ० सुप्रिद विजलवाण, सुख सौनम, श्री महावीर खाल

श्री करण पंडर, श्री देवेन्द्र, श्री गृणमोहन, श्री

धनवीर खाल आदि

समस्त...2. पिक

गनरधरासु. व उन्मय लय/ लयसु उषषिषर ररकर  
ररररररररर री। उरंर री ररररररर डरं (रु) डररुरी डी री  
ररीर व रीर री ररररररररर री डीरन री ररर डरररररर  
रर री उरर ररररर ररर री डरररर ररररर।

: ररररररर रररर

डरं (रु) डररुरी

ररररररररर

ररररररर रररररररररररररर (ररररररर)  
ररररररर (ररररररर)

ररररर ररररररर ररर:

1. डरं ररररर ररररर - Award
2. डरं ररररर -
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

ररररर

- डरं ररररररररररर (रररर)  
ररररर-ररररररर ररर रीररर डररर  
ररर रररर ररररररर (ररररररर)  
ररररररररर।

क्रमांक	नाम	पिता मा नाम	पता
1	आरका अमिता	श्री निशा रित केन्दुरा श्री ज्योतिष लाल	आरका अमिता
2	Amiaii	श्री नारायण सिंह खटा	आरका अमिता
3	Angali	श्री साठल सिंह खडाई	आरका अमिता
4	Ankit	श्री कनकलाल खडाई	Ankit
5	Muskh Shah	श्री ज्ञानलाल खडाई	Muskh Shah
6	Archana	श्री भैरवमान सिंह	Archana
7	Anwar	श्री सुन्दर खडाई	Anwar
8	अंजना	श्री शशीर सिंह खडाई	अंजना
9	आरमिता	श्री भगवान सिंह केन्दुरा	आरमिता
10	अरत	श्री विभीन लाल	अरत
11	आरली	श्री अरुण सिंह	Bharati
12	शेखर वर	श्री देवेन्द्र शाह	Shekhar
13			

भावार्थ  
 शास्त्रीय शास्त्रविद्यालय  
 अरुण (अ.प्र.प्र.प्र.)

नाम—  
कविना  
किरन  
स्नाथना  
कीथल  
राधसा  
करीश्मा  
करीना  
कमपना  
ज्योति

पिता मा नाम  
श्री स्वाधीत शर्मा  
श्री कर्णाल सिद्ध  
श्री विक्रम सिंह  
श्री कमल सिंह  
श्री लखवर्ध सिंह  
श्री गोपाल लाल  
श्री विरेंद्र सिंह शर्मा  
श्री जगत सिंह शर्मा  
श्री फगुल शर्मा

हस्ताक्षर  
कविना  
किरन  
स्नाथना  
कीथल  
राधसा  
करीश्मा  
करीना  
कमपना  
ज्योति

प्राचार्य  
राजकीय उच्चशिक्षण विभाग  
जयपुर (राज.)

111

नाम

पिता का नाम

पता

Mahesh

Mr. Kedarnath Shukh

M

\_\_\_\_\_

Mr. Shobendra

\_\_\_\_\_

Megha

श्री विवेक सिंह

Megha

सौरभ

श्री निरंजन काला

सौरभ

नीना नीगी

श्री मोर सिंह नीगी

नीना नीगी

रविश रावत

श्री शोभा सिंह

रविश रावत

Prishanka

Mr. JETNAM Dhal

Prishanka

श्री

श्री कपूर साहू

श्री

यवन सिंह

श्री मोहन सिंह नीगी

Yuvan Singh

प्रकार्य  
राजकीय तकविद्यालय  
एरावली (राजपुरा)

em

नाम	पिता का नाम	हस्ताक्षर
श्रीरश नरप दीना विपिन ममराड	श्री वीरेंद्र शाह श्री भद्रगिरि सिंह श्री भरत सिंह श्री जिनोबाला नंद श्री राजेंद्र सिंह	Soyra bh Suroj Jerna Dipin Somam <del>Somam</del> Sangsterka Sachdev sinhasph
सीतम प्रीचानी प्रेमचान	श्री प्रीचानंद प्रेमचान श्री विजय सिंह श्री लखतार सिंह	Shashni Rajindra Sina Rathida
संजीना परंर प्रादिल सिंह	श्री हरिचलल श्री राजपाल सिंह रावत श्री बलवीर सिंह कंबुरा श्री केशव सिंह शणा	
वशिष्ठ रवीना दीना अपनीका		

प्रवाश  
राजकीय महाविद्यालय  
झरखोटा (झारखण्ड)